



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 28/04/2021

पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत आक्सीजन सिलेण्डर व प्राण रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वाले आसामाजिक तत्वों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त जोन काशी व अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के निर्देशन में, सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर अमित कुमार मिश्र के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 27.04.2021 को उ0नि0 अनुज कुमार तिवारी मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति पापुलर अस्पताल के सामने ओवरब्रीज पुल के नीचे खड़े होकर रेमडेसिवीर इन्जेक्सन अवैध रूप से बेच रहा है, यदि जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 अनुज कुमार तिवारी मय हमराह पुलिस बल के पापुलर अस्पताल के सामने ओवरब्रीज पुल के नीचे पहुँचकर मुखबिर की निशादेही पर एक बारगी दबिश उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास से 01 अदद रेमडेसिवीर इन्जेक्सन बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनील कुमार पटेल S/O लालजी पटेल निवासी ग्राम दाउदपुर गंगापुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष बताया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को समय 20.45 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सुनील कुमार पटेल पुत्र लालजी पटेल निवासी ग्राम दाउदपुर गंगापुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।

बरादमगी का विवरण-

- एक अदद रेमडेसिवीर इन्जेक्सन जिसके कागज डिब्बे पर अंग्रेजी में Remdesivir for injection 100 mg/vial DESEREMTM MYLan लिखा हुआ MRP 4800/- बैच न0 246045 A Date of mfg 12.12.20 Date of exp. 11.12.21 लिखा है

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 अनुज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी महमूरगंज, उ0नि0 जगदीश प्रसाद, कां0 शिवेन्द्र कुमार तिवारी, थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।